



सिटी ऑफ ब्रैम्पटन कोविड-19 के उपायों को सावधानी से और धीरे-धीरे घटाने के लिए प्रांत के पड़ावों के मुताबिक प्रोग्राम और सेवाओं को अपडेट कर रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (25 जनवरी, 2022) – पिछले सप्ताह, ओनटैरियो सरकार (Government of Ontario) की घोषणा के बाद, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, 31 जनवरी, 2022 से शुरू करते हुए, कई प्रोग्रामों और सेवाओं को अपडेट करने तथा कुछ फैसिलिटीज को दुबारा खोलने की तैयारी कर रही है।

31 जनवरी से लागू होने वाले प्रांत के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपाय

सोमवार, 31 जनवरी, सुबह 12:01 बजे से, निम्नलिखित उपाय लागू होंगे:

- सामाजिक जनसमूहों की सीमाओं को बढ़ाकर इनडोर के लिए 10 और आउटडोर के लिए 25 व्यक्तियों तक किया जा रहा है।
- इनडोर पब्लिक सेटिंग्स में कैपेसिटी सीमाओं को बढ़ाकर, 50 प्रतिशत तक किया जा रहा है या कायम रखा जा रहा है, इनमें शामिल हैं, परंतु इन तक सीमित नहीं हैं:
 - बिना डांस फैसिलिटीज वाले रेस्टोरेंट, बार्स और खानपान के अन्य संस्थान;
 - रिटेलर्स (ग्रोसरी स्टोर्स और फारमेसीज सहित);
 - शॉपिंग मॉल्स;
 - जिम्स सहित, स्पोर्ट्स और रेक्रिएशनल फिटनेस फैसिलिटीज के बिना दर्शकों वाले क्षेत्र;
 - सिनेमा;
 - मीटिंग और कार्यक्रम स्थल;
 - वाटर पार्क सहित, रेक्रिएशनल सुविधाएं और मनोरंजन पार्क;
 - म्यूजियम, गैलरियां, एक्वेरियम, चिड़ियाघर और इनके जैसे अन्य आकर्षण;
 - कैसीनो, बिंगो हॉल्स और अन्य गेमिंग संस्थान; और
 - धार्मिक सेवाएं, रस्में या समारोह।
- स्पोर्ट संबंधी कार्यक्रम, कोन्सर्ट स्थल और थिएटरों जैसी फैसिलिटीज के दर्शकों वाले क्षेत्रों को 50 प्रतिशत सीट कैपेसिटी पर या 500 व्यक्तियों के साथ चलाने की अनुमति है, इसमें से जो भी कम हो।

मौजूदा सेटिंग्स में वैक्सीनेशन के प्रमाण संबंधी तथा अन्य बढी हुई शर्तें, लागू होना जारी रहेंगी।

सिटी की सेवाएं, प्रोग्राम और फैसिलिटीज

सिटी हॉल और कापरिट फैसिलिटीज

21 फरवरी से, सिटी हॉल (City Hall) और कार्परेट फैसिलिटीज, बिना मुलाकात बुक की गई सेवाओं के लिए दुबारा खुलेंगी। तब तक, सेवाएं केवल मुलाकात बुक करके ही प्रदान की जाएंगी। मुलाकात बुक करने के लिए, www.brampton.ca/skiptheine पर जाएं।

फैसिलिटी में मीटिंग संबंधी स्थानों और रेंटल संबंध अन्य विवरण, आने वाले सप्ताहों में प्रदान किए जाएंगे।

ब्रैम्पटन ट्रांजिट

ब्रैम्पटन ट्रांजिट (Brampton Transit), अगले नोटिस तक घटे हुए सेवा लेवल्स पर चल रही है। संचालन के चुनिंदा टर्मिनल घंटों को भी बदला जा सकता है।

सबसे अप-टू-डेट रूट शेड्यूल और संचालन के घंटों के बारे में जानकारी के लिए, सवारियों को सलाह दी जाती है कि वे, ब्रैम्पटन ट्रांजिट के संपर्क केंद्र (Contact Centre) को 905.874.2999 पर फोन करें। नियमित सेवा अपडेट्स के लिए, www.bramptontransit.com पर जाएं या Twitter पर [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) को फॉलो करें।

ब्रैम्पटन ट्रांजिट की सवारियों को याद दिलाया जाता है कि सफर करते समय, बसों और टर्मिनल्स पर टाइट-फिटिंग वाला मास्क पहनें और सफर के दौरान खानपान के लिए अपना मास्क हटाने से परहेज करें, जब तक कि मेडिकल एमरजेंसी न हो। सवारियों को यह भी याद दिलाया जाता है कि वे सफर करते समय हैंड सैनिटाइज़र या वाइप्स जैसे खुद के रोगाणुनाशक पदार्थ साथ में रखें, बार-बार अपने हाथ धोएं और खांसते या छींकते समय मुंह को अपनी कोहनी से ढक लें।

अधिक बार सफाई और सैनिटाइज़ करने का शेड्यूल पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा। हर 48 घंटों में सभी ठोस सतहों, ऑपरेटर कम्पार्टमेंट्स और सीटों को रोगाणु मुक्त करना, ब्रैम्पटन ट्रांजिट का लक्ष्य है। इस समय अधिकतर बसों को हर 24 घंटों में सैनिटाइज़ किया जा रहा है। जिन फैसिलिटीज और टर्मिनल्स की ठोस सतहें हैं, उन्हें रोज़ाना पोंछा जा रहा है और सैनिटाइज़ किया जा रहा है।

रेक्रिएशन

इनडोर रेक्रिएशनल सुविधाएं

रेक्रिएशन सेंटर, सोमवार, 31 जनवरी को, शेड्यूल की हुई रजिस्टर्ड और ड्रॉप-इन प्रोग्रामिंग के लिए दुबारा खुलेंगे। प्रांतीय रेग्युलेशन्स के मुताबिक, रेक्रिएशन सेंटर्स में कैपेसिटी सीमाओं को घटाकर पचास प्रतिशत किया जाएगा। रेक्रिएशन सेंटर्स में आने के लिए पूर्व-रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, हालांकि, यह सलाह दी जाती है कि आने वाले (विजिटर), आने से पहले एडवांस में ही ऑनलाइन अपनी सेवाएं खरीद लें क्योंकि सभी सेवाएं, पहले आए, पहले पाएं के आधार पर हैं। उपलब्ध प्रोग्राम, बुधवार, 26 जनवरी, सुबह 10 बजे से शुरू करते हुए, www.brampton.ca/registerforprograms पर जाकर ऑनलाइन देखे जा सकते हैं।

विंटर रजिस्टर्ड सेशनल प्रोग्राम



सर्दी के रजिस्टर्ड सेशन, छोटे किए सेशन के लिए 31 जनवरी वाले सप्ताह में दुबारा शुरू होंगे। प्रोग्राम की अंतिम तारीखें नहीं बदलेंगी। हिस्सा लेने वाले जिन व्यक्तियों ने पहले, सर्दी के प्रोग्रामों के लिए रजिस्टर किया था, उन्हें अपने क्लाइंट अकाउंट में प्रो-रेटेड क्रेडिट मिल चुका है क्योंकि सेशन की अवधि कम कर दी गई है।

मेम्बरशिप्स

मेम्बरशिप्स सेल्स, बुधवार, 26 जनवरी को सुबह 10 बजे से दुबारा शुरू होंगी। उपलब्ध मेम्बरशिप विकल्प, www.brampton.ca/memberships पर देखे जा सकते हैं।

वैक्सीनेशन के प्रमाण संबंधी शर्तें

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के रेक्रिएशनल सेंटर्स में आने वाले 12 वर्ष और इससे अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों के लिए, वैक्सीनेशन का प्रमाण दिखाना आवश्यक है। यह यूथ, कोच, इंस्ट्रक्टर, देखभालकर्ताओं, वालंटियर्स और गेम संबंधी ऑफिशियल्स सहित, रेक्रिएशन सेंटर्स में सभी भागीदारों और दर्शकों पर लागू होता है।

जो बच्चे 2022 में 12 वर्ष के हुए हैं (जिनका जन्म 2010 में हुआ है), उन्हें उनकी जन्म तिथि से लेकर 12 सप्ताह तक का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, जिस दौरान उन्हें इनडोर स्पोर्ट्स और रेक्रिएशन फैसिलिटीज में वैक्सीनेशन का प्रमाण दिखाने की जरूरत नहीं होगी। इससे बच्चों को वैक्सीनेशन के प्रमाण संबंधी शर्तें पूरी करने के लिए आवश्यक समय मिलेगा। 12 सप्ताह के ग्रेस पीरियड के बाद, उनके लिए वैक्सीनेशन का प्रमाण दिखाना आवश्यक होगा।

वैक्सीनेशन के प्रमाण की स्वीकृत विधियां

रेक्रिएशन सेंटर्स के आगंतुकों के लिए, QR कोड वाला एनहेंसड वैक्सीन सर्टिफिकेट और वेरिफाई ओनटैरियो ऐप उपयोग करना जरूरी होगा। QR कोड को डिजीटल तौर पर प्रयोग किया जा सकता है या इसकी पेपर कॉपी प्रिंट की जा सकती है। लोग, [यहां \(here\)](#) जाकर QR कोड वाला अपना विस्तृत सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। नेगेटिव कोविड-19 (COVID-19) टेस्ट का प्रमाण, वैक्सीनेशन के प्रमाण के विकल्प के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब रेक्रिएशन सेंटर्स तक पहुंच के लिए, लिखित मेडिकल छूटें स्वीकार नहीं की जाती हैं।

ऑनलाइन स्क्रीनिंग

सभी आगंतुकों के पास सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के रेक्रिएशन सेंटर्स में पहुंचने से पहले, ऑनलाइन स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पूरी करने का विकल्प होगा। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टूल तक पहुंच के लिए, [यहां \(here\)](#) जाएं। आगंतुक, अपनी विजिट से पहले ही स्मार्टफोन/कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए, ऑनलाइन प्री-स्क्रीनिंग सवाल पूरे करके समय की बचत कर सकते हैं। नियत स्क्रीनिंग



क्षेत्र/प्रवेश-द्वार पर पहुंचने पर, सभी आगंतुकों के लिए फोन के द्वारा, स्क्रीनिंग पुष्टि (हरा सही का निशान) दिखाना आवश्यक है। उन आगंतुकों के लिए, ऑनसाइट पेपर-आधारित कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उपलब्ध कराना जारी रहेगा, जो ऑनलाइन प्री-स्क्रीनिंग पूरी नहीं करना चाहते।

आउटडोर रेक्रिएशनल सुविधाएं

आउटडोर स्केटिंग और माउंट चिंगकूज़ी (Mount Chinguacousy) सहित, आउटडोर प्रोग्रामिंग और सुविधाएं उपलब्ध होना जारी रहेंगी। आउटडोर प्रोग्रामों और सेवाओं के बारे में अप-टू-डेट जानकारी, www.brampton.ca/winterwonderland पर उपलब्ध है। यदि मौसम और आइस संबंधी स्थितियां ठीक रहीं, तो स्केटिंग रिक्स पहले आएंगे, पहले पाएं के आधार पर चलना जारी रहेंगे। आगंतुकों को सलाह दी जाती है कि वे आने से पहले, आउटडोर स्केटिंग गाइडलाइन्स और आउटडोर रिंक संचालन स्थिति के अपडेट्स के लिए, www.brampton.ca/outdoorskating पर जाएं।

द रोज और परफॉर्मिंग आर्ट्स फैसिलिटीज

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की सभी परफॉर्मिंग आर्ट्स फैसिलिटीज, रिहर्सलों और रिकॉर्ड की गई परफॉर्मेंसेज के लिए उपलब्ध रहेंगी। व्यक्तिगत दर्शकों वाली परफॉर्मेंसेज, कोविड-19 की लागू पाबंदियों के साथ, मार्च 2022 में दुबारा शुरू होंगी।

आउटडोर प्रोग्रामिंग, 21 फरवरी, 2022 को फैमिली डे (Family Day) के लिए गार्डन सक्वेयर (Garden Square) में होगी।

सभी टिकट होल्डर्स के लिए, क्रेडिट/चेक, अकाउंट क्रेडिट या डोनेशन के लिए रिफंड, boxoffice@brampton.ca पर ईमेल करके उपलब्ध होना जारी रहेंगे।

अतिरिक्त विवरण, www.therosebrampton.ca पर उपलब्ध हैं।

एल.बी.पी. (LBP) और सिरिल क्लार्क (Cyril Clark) थिएटर, कोविड-19 की लागू पाबंदियों के साथ, मार्च 2022 में दुबारा खुलेंगे।

ब्रैम्पटन लाइब्रेरी

ब्रैम्पटन लाइब्रेरी (Brampton Library) की सभी ब्रांचें, इन-ब्रांच सेवाओं के लिए रोज़ाना खुलती हैं, माउंट प्लेज़ेंट विलेज (Mount Pleasant Village) को छोड़कर, जो रोज़ाना केवल कर्बसाइट पिकअप सेवा ही पेश करती है। निवासी, जल्द ही शुरू होने वाले, प्रोफेसर्स लेक (Professor's Lake), लोफर्स लेक (Loafer's Lake) और चिंगकूज़ी (Chinguacousy) पार्क में इंस्टॉल किए आउटडोर स्टोरी वॉक्स का आनंद ले सकते हैं। चिंगकूज़ी ब्रांच लाइब्रेरी (Chinguacousy Branch Library), सर्दी की गतिविधियों के लिए मुफ्त किटें प्रदान कर रही है, जो पहले आएंगे, पहले पाएं के आधार पर और खत्म होने तक हैं। विवरणों के लिए, www.bramptonlibrary.ca पर जाएं।



कोविड-19 वैक्सीनेशन

वैक्सीन, खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है। अब पांच वर्ष और इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए मुलाकातें, ओनटैरियो के वैक्सीन बुकिंग सिस्टम के द्वारा या 1.833.943.3900 पर फोन करके बुक की जा सकती हैं।

अब 18 वर्ष और अधिक उम्र के उन व्यक्तियों के लिए, उनकी कोविड-19 बूस्टर मुलाकात तय करने के लिए मुलाकातें बुक की जा सकती हैं, यदि उनकी अंतिम डोज लगवाने के बाद तीन महीने बीत चुके हैं। मुलाकात बुक करने के लिए, <https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario> पर जाएं।

कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में बिल्कुल ताज़ा जानकारी के लिए, प्रांत के [वैक्सीन पोर्टल \(vaccine portal\)](#) पर जाएं।

मास्क

निवासियों को याद दिलाया जाता है कि सिटी ने अपने ब्रैम्पटन कोविड-19 आवश्यक चेहरा ढकना बाइ-लॉ (Brampton COVID-19 Mandatory Face Mask By-law) को, 1 अप्रैल, 2022 तक आगे बढ़ा दिया है।

कोविड-19 संबंधी आवश्यक चेहरा ढकना बाइ-लॉ के अंतर्गत, ब्रैम्पटन में सभी इनडोर जगहों पर गैर-मेडिकल मास्क (कपड़े के बने साधारण मास्क) पहनना जरूरी है। स्कार्फ, बंदन्स, नेक गेटर्स या नेक वार्मर्स और एक्सलेशन वाल्वस वाले मास्क, चेहरा ढकने के स्वीकार्य रूप नहीं हैं। इसके अलावा बाइ-लॉ के अंतर्गत, मास्कों को खानपान के लिए केवल तब ही हटाया जा सकता है, यदि कोई व्यक्ति उस उद्देश्य के लिए नियत क्षेत्र में बैठा हो।

सिटी, वायरस को फैलने से रोकने हेतु मदद करने के लिए, शारीरिक दूरी रखने, अच्छी तरह सफाई रखने और मास्क पहनने जैसे उपायों को अपनाना जारी रखने के लिए निवासियों का धन्यवाद करती है।

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

